


370



पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
दक्षिणी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-II,  
क्षेत्रीय मुख्यालय, बेंगलूर  
(लोक सूचना विभाग)



अंतर कार्यालय ज्ञापन / Inter Office Memo

प्रेषक From: उप महाप्रबंधक(सीपीआईओ)

सेवा में To: CPIO, CC

3/11/18  
SRP/25

संदर्भ सं. Ref No: पीजीसी/आरटीआई/ 763/2018 /1415

दिनांक Date: 5<sup>th</sup> Sept, 2018

*अध्याय 2 पृष्ठ 5, आर टी आई एक्ट 2005 से उद्धृत*

- 5(4). केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता मांग कर सकेगा, जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।
- 5(5). कोई अधिकारी, जिसकी उपधारा (4) के अधीन सहायता चाही गई है, उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को, यथास्थिति, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा।

Please find attached herewith copy of the RTI Application dated 2/8/2018 from Shri K.M.Anoop, POWERGRID, Pathanamthitta TLC under RTI Act, 2005.

In this regard, kind attention is drawn to the following RTI provisions:

**Quote from Chapter II page 5, RTI Act 2005**

**5.(4) The Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, may seek the assistance of any other officer as he or she considers it necessary for the proper discharge of his or her duties.**

**5.(5) Any officer, whose assistance has been sought under sub-section (4), shall render all assistance to the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, seeking his or her assistance and for the purpose of any contravention of the provision of this Act, such other officer shall be treated as a Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be.**

**Unquote**

Accordingly, the information sought in the above RTI application(h) may please be furnished by **12/09/2018** to meet the timeline specified in the Act.

*(Handwritten signature)*

(वी. राजेश)

email id: sr2cpio@powergrid.co.in

Encl.: As above

प्रतिलिपि: कार्यपालक निदेशक (द.क्षे-II) (अपीलीय प्राधीकारी के सूचनार्थ)



APPLICATION TO BE SUBMITTED FOR INFORMATION UNDER  
RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005


From

Anoop-k-m  
Kunnumakara(H), Odhaya Nagar  
Athani P.O, Thrissur, Kerala-680581

To

The Public Information Officer  
Power Grid Corporation of India Limited  
SRTS-II, RHQ, Near RTO driving test track  
Singanayakanahalli, Yelahanka(H), Bangalore-560064.

- (1) Full name of the applicant. : Anoop-k-m
- (2) Address : Kunnumakara (H), Odhaya Nagar  
Athani P.O, Thrissur, Kerala-680581
- (3) Particulars of information required : mentioned below as SI No. (a) to (i)
- (a) Furnish the details of man power requirement in NRTS -II, in executive level and non executive level.
- (b) How many vacancies are filled in NRTS-II from other regions for the last six months?
- (c) Any transfer request of employees to NRTS-II is pending from other regions or not.
- (d) What is the reason for POWERGRID SRTS-II office order no. T-22/2018.
- (e) Is the above order is based on man power requirement in NRTS-II? If not, mention the reason if the transfer is due to punishment on recommendation by any enquiry committee or not? If yes please furnish the committee details along with the report of the committee.
- (f) If the above transfer belongs to any man power requirement, please furnish the copy of request made from POWERGRID NRTS-II regional HR to the SRTS-II or Corporate centre regarding the man power requirement.
- (g) What are the reasons for inter-regional transfer of Supervisor level employee in POWERGRID. Please state the procedure for inter-regional transfer of Supervisor employees and please furnish the copy of details if any.
- (h) Is there any approval taken from Corporate Centre for the above mentioned office order 22/2018. Please furnish the copy of approval



Anoop

763

along with corporate IOM dt.27.07.2018, which is mentioned in the above office order 22/2018.

- (i) Please furnish all the details of Supervisor level employees transferred from SRTS-II to other regions of POWERGRID by mentioning the reason for transfer. Also furnish the copy of approvals taken for inter regional transfers.

(4) Particulars of initial fee of Rs.Ten Paid :Indian Postal Order Number

33F 608331.....

Place : Pathankot/Bitta

Date : 02/08/2018

  
Applicant's Signature